# **Accenture narrows** full-year guidance; Q3 revenue declines



SHIVANI SHINDE Mumbai, 20 June

\* nformation technology (IT) services and consulting major Accenture's third-quarter (Q3) 2023-24 (FY24) results continued to reflect pressure on discretionary spending, with growth driven by managed services deals.

The company, considered a benchmark for the Indian IT services industry, revised its full-year revenue guidance, narrowing it to a growth range of 1.5 per cent to 2.5 per cent, compared to the previous 1 per cent to 3 per cent.

Revenues for O3FY24 totalled \$16.47 billion, down from \$16.56 billion in Q3 2022-23 (FY23), marking a 1 per cent decrease.

Accenture follows a September-August

Julie Sweet, Chair and chief executive officer of Accenture, commented, "We achieved strong new bookings of over \$21 billion, up 22 per cent year-on-year (Y-o-Y). and continued to accelerate our strategy to be the reinvention partner of choice. We added 23 clients with quarterly bookings exceeding \$100 million, bringing the year-to-date (YTD)

The generative artificial intelligence (GenAI) portfolio continued to grow, with bookings reaching \$900 million for the quarter. contributing to a total of \$2 billion in bookings — the largest in the IT services industry.

"We also reached two significant milestones this quarter: \$2 billion in GenAI sales YTD and \$500 million in revenue YTD, demonstrating our early leadership in this critical technology. All this while investing at scale in our business, including 35 acquisitions, or \$5.2 billion in capital deployed YTD. I want to thank the 750,000 people at Accenture worldwide who work every day to deliver 360° value for our stakeholders," Sweet added.

Consulting revenues for the quarter were \$8.46 billion, a decrease of 3 per cent in US dollars and 1 per cent in local currency compared to Q3FY23, reflecting ongoing pressure on discretionary deals.

Managed services revenues for the quarter were \$8.01 billion, up 2 per cent in US dollars

and 4 per cent in local currency Y-o-Y. New bookings for Q3FY24 reached \$21.06 billion, a 22 per cent increase Y-o-Y.

In terms of vertical growth, financial services revenue was \$2.89 billion, down 8 per cent Y-o-Y, while communications, media and technology revenue decreased by 4 per cent to \$2.76 billion.

Growth was driven by health and public services, which grew by 8 per cent Y-o-Y.

Accenture's headcount increased by 7,882 in the quarter, bringing its total employee count to 750,200.

The company also experienced a rise in attrition, increasing to 14 per cent from the previous 13 per cent.

# Startups regain lost funding ground

After four consecutive half-year periods of decline in funding, H1CY24 has seen an upswing

SHIVANI SHINDE & ARYAMAN GUPTA Mumbai/New Delhi, 20 June

Finally, some good news for the Indian startup ecosystem. After four consecutive half-year periods of declining funding since 2022, the first half (H1) of 2024 has shown an upward trend compared to the second half (H2) of 2023.

According to the India Tech Semi-Annual Funding Report H1 2024 by Tracxn, Indian technology (tech) startups raised \$4.1 billion in H1 2024, marking a 4 per cent increase from \$3.96 billion in H2 2023. However, this represents a 13 per cent decrease compared to the \$4.8 billion raised in H1 2023. India, which ranked as the fourthhighest-funded country globally in the tech startup landscape, slipped a position as China advanced in the pecking order in terms of raising higher funds. China raised a total of \$6.2 billion in

H1 2024, becoming the third-highest funded country. In H1 2023, India had surpassed China to be the third-highest fundraising country globally.

Although China raised more funds, the total number of funding rounds for the period was 327, lower than India's 540. Additionally, the number of first-

BUCKING H2CY21 THE TREND H1CY22 ■Total funding H1CY23 H2CY23 H1CY24 4.1 Top funding rounds in H1CY24 Meesho Apollo **Flipkart** 

time-funded companies in India, at 168, was higher than China's 159.

The US continued to lead in overall funding volumes, followed by the UK.

Neha Singh, co-founder of Tracxn, commented, "Despite four consecutive half-year periods of declining funding since H12022, we are now showing signs of stabilisation and an upward trend. India's robust performance as the fourth-highest-funded country in the

tech startup ecosystem is encouraging. From emerging developments in retail and enterprise applications to pioneering advancements in financial technology (fintech), Indian startups are transforming industries and driving economic growth."

The funding landscape across different stages showed varied trends: seed-stage funding increased to \$455 million, up by 6.5 per cent from H2 2023

but down 17.3 per cent from H1 2023.

Early-stage startups maintained steady funding of \$1.3 billion, consistent with H2 2023 but 28 per cent lower than H12023. Late-stage funding rose to \$2.4 billion, marking a 3.8 per cent increase from H2 2023, although it experienced a slight 1.3 per cent drop compared to H1 2023. Despite these challenges, H1 2024 witnessed eight funding rounds surpassing \$100 million, including Flipkart's \$350 million Series J round led by Google, Apollo 24|7's \$297 million private equity round, and Meesho's \$275 million Series Fround. The leading sec tors in terms of performance in H12024 were retail, enterprise applications, and fintech. Funding in the retail sector increased by 32 per cent, reaching \$1.63 billion in H1 2024 compared to \$1.23 billion in H1 2023.

The enterprise application sector raised \$933 million in H1 2024, a 10 per cent decrease from the \$1.04 billion raised in H1 2023. In the fintech space, funding dropped by 50 per cent, from \$1.45 billion in H1 2023 to \$726 million in H1 2024. In H1 2024, three unicorns emerged, a notable increase from zero in H12023, along with 33 new additions to the soonicorn club

#### Biocon seeks partner to test diabetes, weight loss drugs in China

Biocon is searching for a partner in China to test generic versions of Novo Nordisk's hot-selling diabetes drug Ozempic and weight loss treatment Wegovy, a senior executive told Reuters.

Biocon, which aims to eventually launch generic versions of the injectible drugs globally, wants to find a Chinese partner for clinical trials on 500-plus patients so they can be sold in the world's second-biggest economy, said Amit Kaptain, Biocon's head of commercial active pharmaceutical ingredients business.

'We will find it challenging to do it by ourselves because it's at least about a \$12 to \$15 million investment," Kaptain said, referring to a clinical trial required in China.

Huge demand for Wegovy and Ozempic which is sometimes used unofficially as a weight-loss treatment — have helped to turn Novo Nordisk into one of Europe's most valuable companies.


#### Blade in flight meal: **FSSAI** issues notice to catering firm TajSATS

The Food Safety and Standards Authority of India on Thursday issued an improvement notice to flight catering company TaiSATS after a passenger found a bladelike object in a meal served onboard an Air India flight from Bengaluru to San

The incident occurred on June 9, and the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) conducted an inspection at TajSATS Bengaluru from where the food item was supplied.

"We have issued an improvement notice to TajSATS, following a detailed inspection at TajSATS Bengaluru," FSSAI CEO Kamala Vardhana Rao told PTI.

Under the Food Safety and Standards Act, 2006, an improvement notice can be issued to a food business operator if it has failed to comply with any regulations and is required to take measures within a reasonable period.



#### Nikon India eyes 10% growth in FY25, expand healthcare biz

Nikon India expects double-digit growth in India in the current financial year and aims to strengthen its imaging business with more launches and market expansion, top company officials said on Thursday, Currently, India contributes around 6 per cent of Nikon's imaging business globally, Nikon India Managing Director Sajjan Kumar said.

Besides, Nikon is expanding its healthcare business in the Indian market, in which it operates in segments such as microscope solutions. The company has plans to expand this vertical, which currently contributes around 5 per cent of its business here. Kumar said.

FROM PAGE 1

#### 25 startups drop out of list, 3 turn unicorn

top two categories from the

In the report, venture capital firm Peak XV Partners (formerly Sequoia Capital India & SEA) emerged as the top investor with a portfolio of 47 investments. Accel followed with 25 investments and Tiger Global Management with 21.

#### Sebi orders **Religare to** process **Burman** family's open offer

Entities-owned by the Burman family held a 21.54 per cent stake in REL. Four entities purchased an additional 5.27 per cent stake in September 2023 in the open market, following which they made a public announcement to launch an open offer to acquire an additional 26 per cent. Currently, the Burman family Regulation 4(2)(f) of the LODR is the single-largest share- norms, which deals with holder in REL but has no board representation.

Starting October 2023, REL more shares on the ground that posed acquisition

they don't meet the 'fit and proper' criteria to become a promoter of a financial company with key licences for insurance, lending and broking

Meanwhile, Burman's also moved Sebi complaining about This again reflects a drop in the the "complete absence of cooperation and support from 2023 index, when there were REL" which had hindered their 68 unicorns, 51 gazelles and 96 efforts to furnish necessary information for obtaining regulatory approval and complete the open offer process.

On May 31, Sebi advised REL to make an application to RBI, Irdai and Sebi for requisite statutory approvals.

In response to Sebi's letter, REL's committee of independent directors said Sebi's advice was "unwarranted, without jurisdiction and resulted in a regulatory overreach." Sebi said the fit and proper

criteria and REL's allegations would be considered by each regulator while processing the open offer application. The market regulator said

that REL has not submitted any documents or evidence proving the alleged infirmities even after several opportunities provided to them.

#### **Show-cause notices** slapped

show cause notices to REL, Saluja and five others asking them why they shouldn't be barred from the securities market for alleged violation of the responsibilities of the board of

Meanwhile, Sebi has slapped

Regulatory sources said board made several represen- Saluja is also under probe for tations to Sebi against alleged insider trading before Burman's move to acquire the announcement of the pro-

Date: 20.06.2024

directors.



email order@bsmail.in



Central Bank of India Invites e-bids for Tender No. 406 RFP for "Augmentation of existing Hardware Infrastructure, Container Platform & Software along with OEM provided consolidated FMS" Deadline for Tender submission 19/07/2024 up to 15:00 hrs. For details, please visit our website: www.centralbankofindia.co.in

Chief Manager-Admin

#### **INSILCO LIMITED**

Under Voluntary Liquidation wef 25.06.2021) CIN: L34102UP1988PLC010141

Regd. Office - B-23, Sector 63, Noida, Uttar Pradesh - 201301. one: 09837923893, Email id: insilco2@gmail.com, Websit

NOTICE OF THE 3<sup>RD</sup> CONTRIBUTORIES MEETING OF INSILCO LIMITED (UNDER VOLUNTARY LIQUIDATION)

Notice is hereby given that:

Pursuant to Regulation 37(2)(a) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process), Regulations, 2017, the Contributories Meeting ("Meeting") of Insilco Limited ("Company") whoe convened on Friday, 5th July 2024 at 01:00 P.M. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audi /isual Means ("OAVM") facility to present a Status Report(s) indicating progress in liquidation of the

- settlement of list of stakeholders.
- details of any assets that remains to be sold and realized, distribution made to the stakeholders, distribution of unsold assets made to the stakeholders;
- developments in any material litigation, by or against the Company
- filing of, and developments in applications for avoidance of transactions in accordance with Chapter
- ining of, and developments in applications for avoidance of darksections in accordance with Chapter of Part II of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, the reasons for not completing the process within stipulated time period and the additional time requ for completing the process; and
- audited accounts of the liquidation showing the receipts and payments pertaining to liquidation sing
- I the members are informed that:

The Notice of the Contributories Meeting has been sent by email to those Members/Contributorie whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants(s). The electronidispatch of Notice of the Contributories Meeting has been completed on 20th June 2024. The cut-off date for determining the Members eligible to attend the Meeting is 28th June 2024.

Any person becoming a member of the Company after the dispatch of Notice of the Meeting an holding shares as on the cut-off date i.e. 28th June 2024 may obtain the User ID and password by referring to the login instructions attached to this Notice and also available on the Company. website www.insilcoindia.com and the website of NSDL www.evoting.nsdl.com

Alternatively, member may send request providing the email address, DP ID / Client ID, mobile number, number of shares held and self-attested PAN copy via email to insilco2@gmail.com for obtaining the Notice of Meeting.

The Notice of the Contributories Meeting is also available on the website of the Company at

www.insilcoindia.com, and website of BSE Limited at www.bseindia.com, Also, on the website

www.insilcoindia.com, and website of BSE Limited at www.bseindia.com. Also, on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

Members who have not received the notice due to change/ non-registration of their e-mail address with the Company/ RTA/ Depository Participants, they may request, for the notice, by sending an email at Company's email address at insilco2@mail.com for obtaining the Notice of the Meeting. Post receipt of such request and verification of records of the member, the member would be provided soft copy of the notice. It is clarified that for registration of email address, the members are however requested to follow due procedure for registering their email address with the Company! RTA in respect of physical holdings and with the Depository Participants in respect of electronic holdings. Those Members with how a local versite registering their email addresses are requested to keep holdings. Those Members who have already registered their email addresses are requested to keep their email addresses validated with their Depository Participants/ RTA/ Company to enable servicing of notices/ documents/ Annual Reports electronically to their email address. The Members who have not received any communication regarding this Meeting for any reason

whatsoever, and are eligible to attend are also entitled to attend and may obtain the User ID and password or instructions for remote login by contacting at the Company's email address a insilico2@gmail.com or evoting@nsdl.co.in.

Members who would like to express their views/have questions can send their questions in advance. from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio

number, email address, mobile number at Company's email address at insilco2@gmail.com at leas 2 days in advance before the start of the meeting. Such questions shall be replied by the company Members who would like to express their views/ask questions during the meeting may regist themselves as a speaker by sending their request mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number, email address, mobile number at the Company's email address at insilozo@gmail.com at least 48 hours in advance before the start of the meeting i.e. by 3rd July 2024 by 01.00 p.m. (IST). Such questions shall be taken up during the meeting and replied by the Company suitably. The Company reserves the right to restrict the number of questions and number

of speakers, as appropriate for smooth conduct of the meeting.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and eVoting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call

on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Sarita Mote, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, who will also address the grievances connected with joining by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at the Company's email address insilco2@gmail.com. For Insilco Limite

(Under Voluntary Liquidation Kapila Gup

#### In fond Remembrance



### Shri Gopal Krishna Singhania

21st June, 1933 - 03rd January, 1980

You Inspired... we march forward; You dreamt... we visualize; On your foundations, we build; Remembering you on this day, With love and reverence.



## J. K. organisation

Kamla Tower, Kanpur

Fondly remembered by family, friends and employees



<sup>– 435</sup> निदेशक मंडल ने सर शादी 🚣 👊 लाल एंटरप्राइजेज का हिस्सा 413.8 <sub>385</sub> हासिल करने को मंजूरी दी ₹ 413.8 पिछला बंद भाव <sup>360</sup> ₹ **417.4** आज का बंद भाव 0.9 % ▲



एएनजेड, डीबीएस बैंक और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा ₹ 1.831.4 पिछला बंद भाव ₹ 1,865.0 आज का बंद भाव

सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज दादरा इकाई के लिए **-1,505.9** 1,504.2 \_ 1,485 1,470.5 2024 Jun

यूएसएफडीए से चेतावनी ₹ 1,504.2 पिछला बंद भाव ₹ 1,470.5 आज का बंद भाव

470.3-**-444.1** 448.5

फार्मा उद्योग

अप्रैल और मई 2024 के दौरान

भारत ने 1.44 अरब डॉलर बल्क

अप्रैल और मई 2023 में हुआ था

एपीआई की कीमतों में कुछ नरमी

🖿 पीएलआई की बदौलत एपीआई

के स्थानीय उत्पादन में वृद्धि के

कारण चीन से कुछ एपीआई की

जब भारतीय उद्योग के उत्पादन

में कुछ इजाफा होता है, तो चीन

कुछ रसायनों के दाम घटा देता है

1.27 अरब डॉलर का आयात

पिछले दो से तीन महीने में

देखी गई है

मांग घट गई

दवाओं का आयात किया

वेदांत <sub>475</sub> निदेशक मंडल ने सुरक्षित एनसीडी जुटाने को मंजूरी दी . <sup>445</sup> **₹ 448.5** पिछला बंद भाव . 430 **₹ 470.3** आज का बंद भाव 4.9 % ▲



#### 426.8 420 **₹ 426.8** पिछला बंद भाव . 410 **₹ 434.4** आज का बंद भाव 1.8 %

### रेलिगेयर को बर्मन के ओपन ऑफर पर काम करने का आदेश

पृष्ट १ का शेष

बर्मन परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों की रेलिगेयर एंटरप्राइजेज में 21.54 फीसदी हिस्सेदारी थी। चार कंपनियों ने सितंबर 2023 में खुले बाजार से 5.27 फीसदी हिस्सेदारी और खरीद ली। उसके बाद प्रवर्तकों ने 26 फीसदी हिस्सेदारी और खरीदने के लिए ओपन ऑफर का ऐलान कर दिया। बर्मन परिवार अब रेलिगेयर एंटरप्राइजेज का सबसे बड़ा शेयरधारक है मगर कंपनी के बोर्ड में उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है।

अक्टूबर 2023 के बाद से ही रेलिगेयर एंटरप्राइजेज को बोर्ड सेबी से कई बार कह चुका है कि बर्मन परिवार अधिग्रहण के लिए उपयुक्त नहीं है। उसका कहना है कि बीमा, ऋण एवं ब्रोकिंग कारोबार के महत्त्वपूर्ण लाइसेंस वाली किसी वित्तीय कंपनी का प्रवर्तक बनने के लिए बर्मन परिवार सही नहीं है।

इस बीच बर्मन परिवार भी इस शिकायत के साथ सेबी के पास पहुंच गया कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेज का प्रबंधन बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है। उसका आरोप था कि नियामकीय मंजूरी हासिल करने और ओपन ऑफर परा करने के लिए जरूरी जानकारी देने के उसके प्रयासों में प्रबंधन रुकावट बन गया है।

सेबी ने 31 मई 2024 को रेलिगेयर एंटरप्राइजेज को सलाह दी कि उसे रिजर्व बैंक, आईआरडीएआई और सेबी से जरूरी मंजूरी हासिल करने के लिए आवेदन करना चाहिए। सेबी की चिट्ठी के जवाब में रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के स्वतंत्र निदेशकों की समिति इस सलाह को अनावश्यक, अधिकार क्षेत्र से बाहर और नियामक द्वारा दायरे से बाहर जाना बताया।

सेबी ने कहा कि ओपन ऑफर के आवेदन पर विचार करते समय हरेक नियामक पात्रता के पैमानों और रेलिगेयर के आरोपों को नजर में रखेगा। सेबी ने कहा कि बार-बार मांगे जाने के बाद भी रेलिगेयर ने पैमाने पूरे नहीं करने के अपने आरोप के पक्ष में कोई प्रमाण पेश नहीं किया। इस बीच सेबी ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज, सलूजा और 5 अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि एलओडीआर नियमों में से नियम 4(2)(एफ) के कथित उल्लंघन के लिए क्यों न उन्हें शेयर बाजार से बाहर कर दिया जाए। नियामकीय सूत्रों ने बताया कि सलूजा पर प्रस्तावित अधिग्रहण की घोषणा से पहले भेदिया कारोबार करने के भी आरोप हैं, जिनकी जांच चल रही है।

#### आरकैप: समयसीमा बढ़ाने पर सुनवाई टाली

राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) ने रिलायंस कैपिटल की सफल बोलीदाता आईआईएचएल की समाधान प्रक्रिया पुरा करने की समयसीमा बढ़ाने वाली याचिका पर सुनवाई 25 जून तक स्थगित कर दी है।

# बल्क दवाओं का आयात बढ़ा

दाम कम होने से अप्रैल-मई में आयात ने पकड़ा जोर, कंपनियां कर रहीं एपीआई का स्टॉक

सोहिनी दास और श्रेया नंदी मुंबई/नई दिल्ली, 20 जून

त्त वर्ष 2024-25 के पहले दो महीनों के दौरान बल्क दवाओं (एपीआई या दवा में इस्तेमाल कच्चा माल ) के आयात में 13.06 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है। इसकी वजह इस समय एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट (एपीआई) या बल्क दवाओं की कीमतें कम होना है। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि भारतीय फार्मा कंपनियां कम दाम पर एपीआई का भारी स्टॉक अपने पास जमा कर रही हैं।

फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (फार्मेक्सिल) के आंकडों से पता चलता है कि अप्रैल और मई 2024 के दौरान भारत ने 1.44 अरब डॉलर बल्क दवाओं का आयात किया जो अप्रैल और मई 2023 के 1.27 अरब डॉलर की तुलना में 13 प्रतिशत उछाल है। अकेले मई में ही भारत ने 8.67 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 76.343 करोड़ डॉलर की बल्क दवाओं और इंटरमीडिएट्स (तैयार कच्ची दवा) उत्पादों का आयात किया।

फार्मेक्सिल के महानिदेशक उदय भास्कर ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया 'उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का फायदा मिलने में वक्त लगता है, लेकिन यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। भारतीय कंपनियां न केवल एपीआई के लिए, बल्कि केएसएम, रसायन, सॉल्वैंट आदि के लिए भी चीन पर निर्भर हैं। इसलिए किसी न किसी चीज का आयात किया जाता है। पिछले दो से तीन महीने में एपीआई की कीमतों में कुछ नरमी देखी गई है। मिसाल



के तौर पर पैरासिटामोल एपीआई की कीमतें कुछ समय पहले के 600 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 250 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई हैं। कोविड-19 के दौरान इसकी कीमतें 900 रुपये प्रति किलोग्राम तक थीं। मेरोपेनम जैसी कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के एपीआई के दाम भी घटकर लगभग 45,000 से 50,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गए हैं, जो कुछ महीने पहले 75,000 से

80,000 रुपये प्रति किलोग्राम थे। गुजरात की एक मझौली फॉर्म्युलेशन विनिर्माता ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि पीएलआई की बदौलत एपीआई के स्थानीय उत्पादन में वृद्धि के कारण चीन से कुछ एपीआई की मांग घट गई है। इससे कीमतों में गिरावट आई है।' उन्होंने कहा हालांकि अगर अब आयात में वृद्धि हुई है, तो इसकी वजह यह हो सकती है कि स्थानीय फॉर्मुलेशन कंपनियां स्टॉक कर रहीं हैं। उद्योग के अंदरूनी सूत्र इस बात से सहमत हैं कि जब भी भारतीय स्थानीय उद्योग के उत्पादन में कुछ इजाफा होता है, तो चीन कुछ रसायनों, की स्टार्टिंग मैटीरियल (केएसएम) के दाम घटा देता है।

दरअसल भारत ने हाल में पेनिसिलिन जी और क्लैवुलैनिक एसिड के लिए केएसएम बनाना शुरू किया है।इन प्रमुख सामग्रियों का उत्पादन लगभग तीन दशक पहले बंद कर दिया गया था। इनका उपयोग एंटीबायोटिक और यौगिक दवाओं को बनाने में किया जाता है। अरबिंदो फार्मा और किनवन क्रमशः पेनिसिलिन जी केएसएम और क्लैवुलैनिक एसिड केएसएम लेकर आ रही हैं। बल्क दवाओं के लिए भारत चीन पर अत्यधिक निर्भर है।

फार्मेक्सिल के आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में फार्मास्युटिकल उत्पादों (जिसमें बल्क दवाएं, फॉर्मलेशन, सर्जिकल सामान, टीके आदि शामिल हैं ) के आयात की बात करें तो चीन की हिस्सेदारी सबसे अधिक 43.45 प्रतिशत थी। इसके विपरीत फार्मा आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 9.12 प्रतिशत रही। इसके बाद 5.06 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ जर्मनी का स्थान रहा। भारत ने साल 2023-24 के दौरान चीन से 3.6 अरब डॉलर के फार्मा उत्पादों का आयात किया था।

# हुरुन की सूची से 25 स्टार्टअप बाहर

राघव अग्रवाल नई दिल्ली, 20 जून

एक अरब डॉलर से ज्यादा मूल्यांकन के साथ जहां तीन भारतीय स्टार्टअप कंपनियां यूनिकॉर्न बन गईं, वहीं हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 की सूची से 25 स्टार्टअप कंपनियां बाहर हो गईं। इनमें रैपिडो, कू, डंजो, पेपर बोट, डॉटपे, गाना और पार्क प्लस जैसे कुछ प्रमुख नाम शामिल हैं।

गुरुवार को जारी एएसके प्राइवेट वेल्थ हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार तीन

स्टार्टअप कंपनियां यनिकॉर्न बन गई हैं। इनमें भारतीय क्विक डिलिवरी स्टार्टअप कंपनी जेप्टो, जिसे अगस्त 2023 में यूनिकॉर्न का दर्जा मिला; इनक्रेड फाइनैंस,

और लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म पोर्टर

एक और स्टार्टअप इग्जिगो इस साल आरंभिक सार्वजनिक निर्गम ( आईपीओ ) के बाद हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 की सूची से बाहर हो गई। इन 25 स्टार्टअप कंपनियों में से पांच 'गजेल' और 20 'चीता' थीं। गजेल और चीता क्रमशः तीन और पांच साल में यूनिकॉर्न बन सकती हैं। इस सूची में 31 शहरों के 152 भावी भारतीय यूनिकॉर्न कंपनियों के

इस रिपोर्ट के निष्कर्षों में भारत में रकम जटाने के नरम दौर के असर के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि साल 2023 और 2024 में तीन भावी यूनिकॉर्न कंपनियों का दर्जा बढ़कर युनिकॉर्न का हो गया। साल 2022 में यह संख्या कहीं ज्यादा यानी 24 थी।

हुरुन इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने कहा कि रकम जुटाने में नरमी के दौर साल 2021 से पहले के बढ़े हुए मूल्यांकन और बैजूस जैसी कंपनियों से मिले झटकों के

स्टार्टअप

बीच हुरुन इंडिया कंपनियों का सुनहरा फ्यूचर यूनिकॉर्न दौर अब महत्वपर्ण इंडेक्स 2024 में मोड का सामना कर तीन नई भारतीय रहा है। उन्होंने कहा आर्थिक मंदी ने स्टार्टअप शामिल विशिष्ट कंपनियों के

लिए चुनौतियां खड़ी जो दिसंबर 2023 में युनिकॉर्न बनी कर दी हैं, पिछले साल के 24 प्रतिशत गजेल/चीता या तो सूची से बाहर हो गए हैं या उन्हें डाउनग्रेड कर दिया गया है। बढती ब्याज दरों और भू-राजनीतिक चुनौतियों ने पुंजी जुटाने में स्टार्टअप के लिए बाधाएं खड़ी कर दी हैं।' एएसके प्राइवेट वेल्थ के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी राजेश सलूजा ने कहा कि भारत में वेंचर कैपिटल फंडिंग साल 2022 के 38 अरब डॉलर के मुकाबले साल 2023 में घटकर आठ अरब डॉलर रह गई।

# टेक स्टार्टअप को मिली ज्यादा रकम: ट्रैक्सन

**आखिरकार** भारतीय स्टार्टअप तंत्र के स्टार्टअप कंपनियों ने साल 2024 की लिए कुछ अच्छी खबर आ ही गई। साल 2022 से लगातार चार छमाहियों के दौरान रकम हासिल करने को तरस रहे इस क्षेत्र में साल 2024 की पहली छमाही में साल 2023 की दूसरी छमाही के मुकाबले ज्यादा धन मिला है।

ट्रैक्सन की इंडिया टेक सेमी-एनअल फंडिंग रिपोर्ट में

कहा गया है कि

पहली छमाही में 4.1 अरब डॉलर जुटाए, जो साल 2023 की दूसरी छमाही में जुटाए गए 3.96 अरब डॉलर से चार प्रतिशत अधिक हैं।

अलबत्ता साल 2023 की पहली छमाही में जुटाए गए 4.8 अरब डॉलर के मुकाबले फंडिंग में 13 प्रतिशत की कमी आई। टेक स्टार्टअप के परिदृश्य में भारत वैश्विक स्तर पर रकम जुटाने के मामले में चौथे स्थान पर बना रहा। अलबत्ता

ज्यादा रकम जुटाने के मामले में चीन आगे निकल गया है।

चीन ने कैलेंडर वर्ष 2024 की पहली छमाही में कुल 6.2 अरब डॉलर जुटाए और सबसे अधिक फंड जुटाने वाला तीसरा देश बन गया। साल 2023 की पहली छमाही में भारत चीन को पछाड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक फंड जुटाने वाला देश बन गया था। हालांकि चीन ने ज्यादा रकम जटाई, लेकिन इस अवधि में रकम

जुटाने के कुल 327 दौर रहे मुकाबले कम थे। साथ ही भारत में पहली बार रकम जटाने वाली कंपनियों की संख्या 168 थी जो चीन की 159 कंपनियों से अधिक थी। रकम जुटाने की कुल मात्रा में अमेरिका सबसे आगे बना रहा, उसके बाद ब्रिटेन का स्थान रहा।

टैक्सन की सह-संस्थापक नेहा सिंह ने कहा, 'साल 2022 की पहली छमाही से लगातार चार छमाही की अवधियों मे फंडिंग में गिरावट के बावजूद अब हम स्थिरता के संकेत देख रहे हैं जिनमें बढ़त का रुख है। टेक स्टार्टअप तंत्र में सबसे ज्यादा फंड पाने वाले चौथे देश के रूप में भारत का दमदार प्रदर्शन उत्साहजनक है। खुदरा और एंटरप्राइज ऐप्लीकेशन में दिख रहे विकास से लेकर फिनटेक में अग्रणी प्रगति तक भारतीय स्टार्टअप उद्योगों को बदल रही हैं और आर्थिक विकास को रफ्तार दे रहीं हैं।'

फंडिंग के विभिन्न चरणों के परिदृश्य जो भारत के 540 दौर के में अलग-अलग रुझान नजर आए हैं -सीड-स्टेज फंडिंग बढ़कर 45.5 करोड़ डॉलर हो गई, जो साल 2023 की दूसरी छमाही की तुलना में 6.5 प्रतिशत अधिक है, लेकिन साल 2023 की पहली छमाही से 17.3 प्रतिशत कम है।

शुरुआती चरण वाली स्टार्टअप कंपनियों ने साल 2023 की दूसरी छमाही के अनुरूप 1.3 अरब डॉलर की स्थिर फंडिंग राशि बनाए रखी. लेकिन यह साल 2023 की पहली छमाही से 28 प्रतिशत कम रही। लेट-स्टेज फंडिंग बढ़कर 2.4 अरब डॉलर हो गई। *बीएस* 

# नैसकॉम की रिपोर्ट से खुलासा

# डीपटेक स्टार्टअप परिवेश में भारत छठे स्थान पर

आशुतोष मिश्र नई दिल्ली, 20 जून

नैसकॉम-जिनोव के एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 3.600 से अधिक डीपटेक स्टार्टअप कंपनिया हैं और वैश्विक डीपटेक परिवेश में छठे स्थान पर है। 'डंडियाज टीपटेक डॉनः फोर्जिंग अहेड' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि 3.600 डीपटेक में से खुली हैं। यह साल 2022 के मुकाबले दोगुना अधिक है।

ज्यादा डीपटेक कंपनियों ने नए डोमेन में बौद्धिक संपदा अथवा अनुठे समाधान तैयार किए हैं। उल्लेखनीय है कि साल 2023 में स्थापित की गईं 74 डीपटेक स्टार्टअप आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) पर केंद्रित हैं, जिसमें साल 2014 से साल 2022 की अवधि में 62 फीसदी से अधिक

वृद्धि हुई है। देश को वैश्विक एआई प्रतिभा और डेवलपरों के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर देखा जा रहा है मगर डीपटेक के मामले में भारत दनिया भर में छठे स्थान पर है।

नैसकॉम डीपटेक की प्रमुख कृतिका मुरुगेसन ने कहा, 'भारत को शीर्ष डीपटेक स्टार्टअप परिवेश में शामिल होने के लिए प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें, उत्पाद तैयार करने और क्षमता बढाने 480 से अधिक डीपटेक स्टार्टअप के लिए डीपटेक स्टार्टअप में पूंजी कंपनियां सिर्फ कैलेंडर वर्ष 2023 में तक पहुंच, अगली पीढ़ी के नवाचार के लिए शिक्षा जगत के साथ मजबूत आरऐंडडी साझेदारी, स्टार्टअप के रिपोर्ट में कहा गया है कि 100 से लिए सरकारी व्यवस्था को सव्यवस्थित करना शामिल है।'

> रिपोर्ट के मुताबिक, कैलेंडर वर्ष 2023 में भारतीय डीपटेक स्टार्टअप कंपनियों में एक साल पहले के मुकाबले रकम जुटाने के मामले में 77 फीसदी की गिरावट देखी गई और कुल 85 करोड़ डॉलर का ही निवेश मिला।

### इनसिल्को लिमिटेड

सीआईएन : L34102UP1988PLC010141 पंजी कार्यालयः बी-23 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश - 201 301 फोनः 09837923893, ईमेल आईडीः insilco2@gmail.com, वेबसाइटः www.insilcoindia.com

> तीसरी योगदानकर्ता बैठक का नोटिस इनसिल्को लिमिटेड (स्वैच्छिक परिसमापन के तहत)

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि

नारताच तथाला एवं साबने अवतार्थ शिव (स्वाय्क्रफ पारस्ताचन आस्त्रा), वानाचन, 2017 क पानाचन अंद्रार्थ कर्नुसार, इनिस्त्रिक (किंगमी) की योगदानकर्ता बैठक (बैठक) शुक्रवार, 5 जुलाई 2024 को दोश कर 61-00 को कारतीय समयानुसार वीडियो कॉन्फेसिंग (वीसी)∕अन्य ऑडियो विजुअल साबनों ('बोएबीएम') की सुविधा के माध्यम से कंपनी के परिसमापन में प्रगति को दशीने वाली स्थिति रिपोर्ट(टीं) को प्रस्तुत करने के लिए आयोजित की जाएगी, जिससे निन्नलिखित शामिल हैं:

- हितधारकों की सूची का निपटा बिक्री और वसल की जाने वाली किसी भी संपत्ति के विवरण
- हितधारकों को किया गया वितरण हितधारकों को बिना बिक्री की गई संपत्ति के वितरण
- कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी भी महत्वपूर्ण मुकदमे का विकास
- · दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 के भाग II के अध्याय III के अनुसार लेनदेन से बचने के लिए आवेदन दाखिल करना और उसमें प्रगति
- निर्धारित समयाविध के भीतर प्रक्रिया को पूरा न करने के कारण और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक परिसमापन के लेखापरीक्षित खाते जिसमें परिसमापन के प्रारंभ तिथि से परिसमापन से संबंधित प्राप्तियां और
- सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि
- योगदानकर्ता बेठक के नोटिस उन सदस्यों /योगदानकर्ताओं को ईमेल द्वारा भेजी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्(स) के साथ पंजीकृत हैं। योगदानकर्ता बैठक की सूचना का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 20 जून 2024 को पूरा हो गया है।
- 20 जून 2024 को पूरा है। ने निहास से देखने के लिए पात्र सदस्यों को निर्धारित करने की कट ऑफ तिथि 28 जून 2024 है। जो कोई व्यक्ति कंपनी का सदस्य बनने का इच्छुक है वह बैठक के नोटिस प्रेषण के बाद और कट ऑफ तिथि यानी 28 जून 2024 को शेयरधारक है, इस नोटिस के साथ संलग्न लॉगिन निर्देशों का संदर्भ लेकर यूजर आईडी और पासवर्ड पाप्त कर सकता है और यह निर्देश कंपनी की वेबसाइट www.insilcoindia.com और जार चाराच्या आर पर राज्या । कार चढ़ निवस क्या का चुना का चुना का चुना हुए www.nisincolinua.com जार एनएसडीएक की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर में। उपलब्ध हैं। वैकल्पिक रूप से, सदस्य बैठक का नोटिस प्राप्त करने के लिए ईमेल पता, डीपी आईडी / ग्राहक आईडी,
- मोबाइल नंबर, शेयरों की संख्या और स्व-सत्यापित पैन कॉपी प्रदान करते हुए insilco2@gmail.com पर नाबाइल नबर, रायरा का राख्या आर रच-संत्यापत पन काम प्रदान करत हुए insiico2@gmail.com पर इंमेल के माद्यम से अनुरोच मेज सकते हैं। योगदानकर्ता बैठक के नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.insilcoindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, यह एनएसडीएल की वेबसाइट
- शेयरधारिता के संबंध में कंपनी / आरटीए के साथ और इलेक्टॉनिक शेयरधारिता के संबंध में डिपॉजिटर्र रारिपारिया के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए शिवा आक्रा कार्यामा के राख्य ने कार्यास्त्र पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए वित्त प्रक्रिया का पालन करें। जिन सदस्यों ने पहले ही अपने ईमेल पते पंजीकृत कर लिए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ईमेल पते को अपने डिपोंजिटरी पार्टिसिपेंट्स ∕ कंपनी के साथ सत्यापित कर लें तािक उनके ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से
- नोटिस / दस्तावेज / वार्षिक रिपोर्ट की सेवाएं प्रेषित की जा सकें। नातरा, प्रसायज्ञ आवश्य राज्य सार्वा प्राचार का सार्वा आवश्य का सार्वा किस सार्वा की किसी भी कारण से इस बैठक के बारे में कोई नीटिस प्राप्त नहीं हुआ है, और जो इसमें भाग लेने के पात्र हैं, वे भी इसमें भाग लेने के हकदार हैं और कंपनी के ईमेल पते insilco2@gmail.com या evoting@nsdl.co.in पर संपर्क करके युजर आईडी और पासवर्ड या रिमोट लॉगिन के लिए निर्देश प्राप्त कर
- जो सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे बैठक शुरू होने से कम से कम 2 दिन पहले अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर / फोलियो नंबर, ईमेल पता, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी के ईमेल पते insilco2@gmail.com पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का कंपनी द्वारा उचित रूप से उत्तर दिया जाएगा। . जो सदस्य बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीपी आईडी और
- ग्राहक आईडी नंबर / फोलियो नंबर, ईमेल पता, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी के ईमेल पते insilco2@gmail.com पर बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले यानी 3 जुलाई 2024 को दोपहर 01.00 बजे (भारतीय समयानुसार) तक अपना अनुरोध मेजकर खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत करवा सकते हैं। बैठक के दौरान उनके प्रश्न उठाए जाएंगे और कंपनी द्वारा उचित रूप से उत्तर दिए जाएंगे। बैठक के सुघारू संघालन के लिए कंपनी प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सरक्षित रखती है।
- ांग किसी भी प्रश्न के मानले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुमाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई—वोटिंग उपयोगकर्ता पुरितका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर राति को निकास करते हैं या सुन्नी सरिता मोटे, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड अनुरोध मेज सकते हैं या सुन्नी सरिता मोटे, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड बर्ल्ड, 'ए' विंग, बौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई — 400 013 के साथ संपर्क कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शामिल होने से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी करेंगे। सदस्य कंपनी के ईमेल पते insilco2@gmail.com पर कंपनी सचिव को भी लिख सकते हैं।

दिनांकः 20.06.2024

स्थानः नोएडा, उ.प्र

कृते इनसिल्को लिमिटेड (स्वैच्छिक परिसमापन के तहत)

# almondz

#### अलमोंड्ज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड

**कार्पोरेट कार्यालयः** एफ–33/3, ओखला ओद्योगिक क्षेत्र फेज–2, नई दिल्ली–110020, भारत है—मैतः secretaria@almondz.com वेबसाइटः www. almondzglobal.com CIN: L74899DL1994PLC059839 फोनः + 91 11 43500700 फैक्सः + 91 11 4350 0735

**डाक मतपत्र सूचना** कंपनी के सदस्यों को एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम" कंपना के संदर्श्या की एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपना आधानयम, 2013 ('आधानयम, वेके छारा रा।), कंपनी (अवंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (''नियम') के नियम 22 एवं 20, कंपोर्चेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संगत परिपत्र (यहां के बाद "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्शित), सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियम') के विनियम 44 और आम बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस-2) के अनुसरण में कंपनी डाक मतपत्र सूचना दिनांक 18 जून, 2024 में विनिर्देशित अनुसार विशेष व्यवसाय (अधिनियम की छारा 102 के साथ पठित छारा 110 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार व्याख्यात्मक विवरण के साथ) (यहां के बाद 'सूचना' के रूप में संदर्शित) के संबंध में केवल ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाक मतपत्र द्वारा सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना चाहती है।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी य डिपॉजिटरीज /डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत उनके ई—मेल पते पर ई—मेल के माध्यम सं सूचना भेजने का कार्य 20 जून, 2024 को पूरा कर रही है जिनके नाम **सुक्रवार, 14 जून, 2024** (कट—ऑफ तिथि) को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर सदस्यों के रजिस्टर/लामार्थी स्वामियों की

सूचना कंपनी की वेबसाइट www.almondzglobal.com पर प्रदर्शित की गई है। सूचना की कोई भौतिक प्रति नहीं भेजी गई है और सदस्यों की सहमति/असहमति केवल ई-वोटिंग सुविघा के माध्यम से ली जाएगी। इस संबंध में सदस्यों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि:

अधिनियम के साथ पठित संबंधित नियमों, एमसीए परिपत्रों और सूचीयन विनियम, समय–समय पर यथासंशोधित में दिये गये अनुसार व्यवसाय का निष्पादन केवल ई-वोटिंग द्वारा डाक मतपत्र माध्यम से किया जाना है;

सतस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना शुक्रवार, 14 जून, 2024, जो कि कट-ऑफ तिथि है, के अनुसार की गई है और ऐसा व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है वह इस सूचना को केवल जानकारी का प्रयोजन मात्र समझे: कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की सेवाएं ली हैं। ई-वोटिंग की प्रक्रिया पोस्टल बैलट नोटिस के

भाग वाले नोटस में दी गई है;

ई—वोटिंग शनिवार, 22 जून, 2024 को प्रातः 09:00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और रविवार, 21 जुलाई, 2024 को सार्य 05:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। उसके बाद रोट्स डिऑजिंटरी सर्विसेज (इंडिया) तिमिटेड द्वारा ई—वोटिंग मॉडयून हटा लिया जाएगा और कथित तिथि एवं समय के बाद ई—वोटिंग की अनुगति नहीं दी जाएगी; ई-वोटिंग दिशानिर्देशों के लिए सदस्यगण सूचना में दिये गये निर्देशों को मली-मांति पढ़ ले और ई—वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ एवं शिकायत के लिए सदस्यगण helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क पर संपर्क कर सकते हैं या 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं;

ई-बोटिंग प्रक्रिया पर निर्देश, जिसमें भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों या जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, द्वारा अपना वोट डालने की प्रक्रिया डाक मतपत्र सूचना के भाग के रूप में दी गई है।

डाक मतपत्र सूचना में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज नाम, फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए ई-वोटिंग के माध्यम से वोट प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक secretarial@almondz.com पर प्राप्त अनुरोध के आघार पर सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

स निरक्षण क लिए उपलब्ध कराए जाएग। सदस्यगण जिन्हों ने अपना ई—मेल पता पंजीकृत नही किया है और जिसके परिणामस्वरूप वह डाक मतपत्र सूचना प्राप्त नही करते हैं, तो ऐसे सदस्यगण beetalta@gmail.com पर ई—मेल मेजकर कंपनी के आरटीए, बीटल फाइनेशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास अपना ई—मेल पता अस्थाई रूप से पंजीकृत करा सकते हैं। ई—मेल सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद सदस्यगण सूचना और इस डाक मतपत्र के लिए वीटिंग करने हेत्र ई—वीटेंग प्रक्रियां की सॉट कॉपी प्राप्त करेंगे किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण beetalrta@gmail.com या 011-29961281-283, फैक्स 011-29961284 पर संपर्क कर सकते हैं; आई) कंपनी ने ई—वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए मैसर्स , ..... र व्याप्त प्राक्रया का ानष्यक्ष एव पारदशी तरीके से आयोजित करने के लिए मैससं आशु गुप्ता एंड कं., कंपनी सचिव (एफसीएसः 4123/सीपी नं. 6646), पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया है;

डाक मतपत्र का परिणाम ई-वोटिंग अवधि समाप्त होने के बाद 2 दिन के भीतर घोषित किय डाक नतपत्र का पारणान इन्याटन अवाध सनाग्य होना क बाद 2 दिन के नातर धानवता किय जाएगा और इसे कंपनी की वेबसाइट www.almondzglobal.com और सीडीएसएव की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और इसकी सूचना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को भी दी जाएगी।

. बोर्ड की आज्ञानुसार कृते अलमॉंड्ज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेब कंपनी सचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कॉर्पोरेट मामले

### सीमित नवाचार का असर : कंपनियों ने बदली रणनीति

# वियरेबल उद्योग में दिख रहा फेरबदल

आर्यमन गुप्ता नई दिल्ली, 19 जून

वियरेबल्स बाजार में कम अंतर और सीमित नवाचार की वजह से इस क्षेत्र की कंपनियां अपनी रणनीति पर फिर से गौर कर रही हैं। काउंटरपॉइंट के आंकड़ों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में काम करने वाली शीर्ष तीन कंपनियों की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी साल 2023 की पहली तिमाही की 77 प्रतिशत हिस्सेदारी से घटकर साल 2024 की पहली तिमाही में 66 प्रतिशत रह गई है। उद्योग के अंदरूनी सुत्रों का कहना है कि कम आधार के साथ-साथ सस्ते उत्पादों की भरमार की वजह से मांग में यह गिरावट आई है।

बाजार की अग्रणी बोट के सह-संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी समीर मेहता ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'पिछले दो वर्षों के दौरान वियरेबल बाजार में प्रवेश के लिए कोई रुकावट नहीं रही है। यह उपभोक्ताओं को कम गुणवत्ता वाले सामान बेचने की समस्या है, जिस से मांग में नरमी आई है।' दुसरी तरफ बोट के



सबसे बडे प्रतिस्पर्धी वियरेबल ब्रांड नॉइज के सह-संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी गौरव खत्री का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में वियरेबल बाजार में तेज वृद्धि कम आधार के असर का परिणाम थी। उन्होंने कहा, 'एक साल में काफी कुछ बदल

चुका है।पिछले साल की शुरुआत में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले शुरुआती स्तर के कई ब्रांड पिछड़ कर सिस्टम से बाहर हो गए हैं क्योंकि वे प्रौद्योगिकी और नवाचार कामय रखने में सक्षम नहीं थे। यह कम आधार है। फिर भी नॉइज दो अंकों में बढ़ने में सक्षम रहा है।' ऐसे में फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिये वियरेबल की बिक्री भी प्रभावित हुई है।

फ्लिपकार्ट के उपाध्यक्ष (इलेक्ट्रॉनिक्स) जगजीत हरोडे ने कहा, 'कुछ नरमी (वियरेबल की बिक्री में) है। पिछले दो से तीन वर्षों में यह श्रेणी बाजार के औसत से 10 गुना बढ़ रही थी। यह सामान्य चक्र में आ रही है जो हर इलेक्टॉनिक्स श्रेणी के साथ होता है. जो कि अब मात्र पैठ से अपग्रेड और रिपीट की ओर बढ़ रही है।' काउंटरपॉइंट रिसर्च के शोध विश्लेषक हर्षित रस्तोगी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय बाजार में स्मार्टवॉच की अत्यधिक वृद्धि मुख्य रूप से किफायती फैशन एक्सेसरी के रूप में इसके आकर्षण के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि वृद्धि का यह शुरुआती चरण अब ठंडा पड़ रहा है क्योंकि इस श्रेणी का शुरुआती उत्साह कम हो रहा है।

आईडीसी इंडिया के वरिष्ठ बाजार विश्लेषक (स्मार्ट वियरेबल उपकरण) विकास शर्मा ने कहा कि विक्रेताओं को नए मॉडलों में नयापन और नवाचार सीमित होने के कारण ग्राहकों को अपग्रेड करने के लिए लुभाने में चुनौतियों का सामना करना पडरहा है।